



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 406) पटना, शुक्रवार 4 मई 2018

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना
25 अप्रील 2018

सं० जी/सेना-05-05/2017-3992—युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में 10 अक्टूबर, 2017 से आरंभ होने वाली और 09 अक्टूबर, 2027 को समाप्त होने वाली दस वर्षों की अवधि के दौरान, मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करते हैं। उक्त धारा की उपधारा-(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, परिभाषित करने वाली अधिसूचना सं०-8944 दिनांक 10.10.2017 जिसके भीतर 10 अक्टूबर, 2017 से आरंभ एवं 09 अक्टूबर, 2027 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप से मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत किया जा सकता है। दिनांक 12.10.2017 के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा उक्त धारा की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के जारी करने का अभिप्राय प्रकाशित करने वाली अधिसूचना, दिनांक 2017 के बिहार गजट के असाधारण अंक में अधिसूचना सं०-335 दिनांक 16.01.2018 के द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

भूमि का नक्शा (लैंड प्लान) एवं क्षेत्र के ब्यौरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण जिला पदाधिकारी, नालंदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची-1

भू-क्षेत्र का ब्यौरा/चौहद्दी

ग्राम— नेकपुर, थाना सं० 486, जिला—नालंदा में 170 एकड़ भूमि रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-1335/6/सा० दिनांक-24.09.2007 के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (आर०टी०सी०-5) के निर्माण हेतु हस्तान्तरित है और प्रश्नगत जमीन का सम्पूर्ण रकबा का चाहरदीवारी निर्माण किया हुआ है। उक्त अधिगृहित भूमि में प्लॉट (खेसरा) सं० 3759, खाता सं०-166, जिसका कुल

रकबा—170 एकड़ में 100–500 मी० मीटर बफल फायरिंग रेंज अवस्थित है। उक्त फायरिंग रेंज का ब्यौरा एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:—

पूरब— प्रवेश द्वार।

पश्चिम— खेत और इस फायरिंग रेंज के बाहरी चाहरदिवारी से लगभग ढाई किलो मीटर की दूरी पर चैनपुर गाँव अवस्थित है।

उत्तर— खेत और फायरिंग रेंज के बाहरी चाहरदिवारी से लगभग ढाई किलो मीटर की दूरी पर कुबरी गाँव अवस्थित है।

दक्षिण— राजगीर पहाड़ का वैमारगिरी पर्वत अवस्थित है, जो पूर्ण रूप से निर्जन क्षेत्र है। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 25th April 2018

S.O. G/Sena-05-05/2017- 3992—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938), the Governor of Bihar is pleased to authorize, during the period commencing from the 10th October, 2017 and ending on the 09th October, 2027, the carrying out of Field Firing and or artillery practice throughout the area described in the schedule hereto annexed. A notification, as required by sub-section (1) of the said section, defining the said areas as the area within which for a period of ten years commencing from the 10th October, 2017 and ending on the 09th October, 2027 the carrying out periodically of the field firing and the artillery practice may be authorized, has been previously published in the extra-ordinary issue of the “Bihar official Gazette”, dated the 12-10-2017 with s.o. no 8944 dated the 10.10.2017 and a notification in respect of the same as required by sub-section (3) of the said section publishing the intention to issue this notification has been previously published in extra-ordinary issue of the “Bihar Gazette”, dated the with S.O. no.- 335 , dated the 16-01-2018.

The land plan may be inspected at the office of District Magistrate, Nalanda

Schedule

Particulars and boundary of the land-area

170 acre land in village-Nekpur, P.S. No.-486, District-Nalanda, which has been transferred to Recruit Training Centre, Central Reserve Police Force vide Circular No. 1335/6/sa dated 24.09.2007 for construction of Central Reserve Police Force (R.T. C-5) and the boundary wall has been constructed on the total circumferential area of the aforesaid land. 100-500 meter baffle firing range is situated on Plot (Khesra) No. – 3759, Khata No. – 166 total area 170 acre of the aforesaid acquired land. The particulars and boundary of Firing Range is given below :-

East - Entrance Gate.

West - Field and Chainpur Village is situated approximately 2.5 Km from the outer boundary of the firing Range.

North - Field and Kubari Village is situated approximately 2.5 Km from the outer boundary of the Firing range.

South - Vaimar Giri Parwat of Rajgir Hill, which is a completely deserted area.

This notification shall come in to force from the date of issue.

By order of the Governor of Bihar,
(Sd) Illegible,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 406-571+25-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>